



कंपनी के कर्मचारी ने ही लगाई थी शॉपिंग साइट में सेंध

- क्राइमब्रांच की टीम ने सुलझाया पूरा मामला
- अभियुक्त को पकड़कर थाना फजलगंज में किया दाखिल
- ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर का मामला

कानपुर। आईपी एड्रेस हैक कर ऑनलाइन शॉपिंग साइट में सेंधमारी कर उत्पादों पर तमाम ऑफर देने के मामले को क्राइम ब्रांच की टीम ने सुलझा दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में शामिल एक कर्मचारी को पकड़कर थाना फजलगंज में दाखिल किया है।

घटनाक्रम के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग साइट में आईपी एड्रेस हैक करके ऑफर निकाल दिए थे, कुछ ही समय में लाखों का माल भी बिक गया। कंपनी को जब तक इस सेंधमारी की जानकारी हुई तब तक कंपनी को पांच लाख की चपत लग चुकी थी। कंपनी की तरफ से फजलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पूरा मामला फजलगंज में लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर का है। कंपनी के अधिकारी राजेश मिश्रा ने पुलिस को बताया था कि कंपनी कई उत्पाद फ्लिपकार्ट के जरिये ऑनलाइन बेचती है। जिसमें डिस्काउंट व ऑफर दिये जाते हैं। मगर 30 अप्रैल को आईपी एड्रेस हैक करके उत्पादों पर भारी ऑफर व डिस्काउंट दिया गया। इससे लाखों रुपये की बिक्री हो गई। चूंकि वास्तव में कोई डिस्काउंट नहीं था, इसलिए कंपनी को करीब पांच लाख रुपये का घाटा हुआ।

मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो जांच शुरू हुई। उक्त घटना का अनावरण डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल की साइबर क्राइम टीम के प्रभारी उप निरीक्षक पुनीत तोमर, आरक्षी जितेंद्र गर्ग, आरक्षी राजीव कुमार व थाना फजलगंज के एसएचओ देवेन्द्र कुमार दुबे व उनकी टीम के द्वारा किया गया। इसमें प्रकाश में आए अभियुक्त ऋषि राज सिंह पुत्र स्व महेश चंद्र सिंह नि० एमआईजी 5 बर्दा 2 कानपुर नगर जो की उक्त फर्म का ही टीम मैनेजर है उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है।